

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी 2024 — माघ 27, शक 1945

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 23 जनवरी 2024

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 5-24/2022/10-2.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नंबर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर “आरक्षित वन” के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोण्डागांव उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

जिला-कोण्डागांव, तहसील- कोण्डागांव, वनमंडल- कोण्डागांव, वन परिक्षेत्र-नारंगी

स.क्रं.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नंबर एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहाँ वन खण्ड स्थित है.	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे.में)	अवस्थिति/सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	दक्षिण आदनार	41 आदनार	1/1 भाग	18.608	उत्तर — कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्रमांक 21 से 1 एवं 1 से 6. पूर्व — कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 6 से 14. दक्षिण — कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्रमांक 14 से 16. पश्चिम — कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्रमांक 16 से 21.
		योग—	01	18.608	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक पाण्डेय, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 23 जनवरी 2024

क्रमांक/एफ 5-24/2022/10-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 5-24/2022/10-2 दिनांक 23-01-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक पाण्डेय, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 23rd January 2024

NOTIFICATION

No./F 5-24/2022/10-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as "Reserved Forest" and appoints the Sub-divisional Officer (Revenue), Kondagaon sub-division to act as the Forest Settlement Officer to inquire in to and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with same in accordance with the provisions of Chapter-II of the said Act, namely:-

SCHEDULE

District- Kondagaon, Tahsil- Kondagaon, Forest Division- Kondagaon, Forest Range- Narangi

S.No.	Name of Forest Block	Patwari Halka No. and Name of Revenue Village, where Block is situated	Khasra Number	Area (In Hec.)	Situation / Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	South Aadnar	41 Aadnar	1/1 Part	18.608	North— Artificial boundary line survey Pillar No. 21 to 1 and 1 to 6. East— Artificial boundary line survey Pillar No. 6 to 14. South— Artificial boundary line survey Pillar No. 14 to 16. West— Artificial boundary line survey Pillar No. 16 to 21.
Total:-			01	18.608	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MAYANK PANDEY, Deputy Secretary.